



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 38 पटना, बुधवार, 15 आश्विन, 1931 (श०)
7 अक्टूबर, 2009 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डी०पी०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क
	13-13

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना।

अधिसूचना
22 सितम्बर 2009

सं० नि०वि०स्था०-चि०-323/09-4855—श्री गणेश प्रसाद, (वि०प्र०से०) संयुक्त सचिव-सह-मुख्य निगरानी पदाधिकारी, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को पत्नी की चिकित्सा के लिए, बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 21 जुलाई 2009 से 13 अगस्त 2009 तक कुल-24 (चौबीस) दिनों का उपाजित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आर० के० जैन, संयुक्त सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
7 सितम्बर 2009

सं० 1/रा.स्था.वि०स०से०.(अभ्या.) 43/07/3671—श्री अनिरुद्ध सिंह, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा का प्रभार दिया गया जाता है।

यह आदेश तुरत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
ललन राय, उप-सचिव।

7 सितम्बर 2009

सं० 1/रा.स्था.वि०स०से०.(अति.प्र.) 22/09/3673—श्री कृष्णा चौधरी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, नवादा अंचल, नवादा का प्रभार दिया जाता है।

यह आदेश तुरत लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से
ललन राय, उप-सचिव।

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचनाएं
13 जनवरी 2009

सं० 1/डी०-10-05/2007-गृ.आ.-175—श्री कुन्दन कृष्णन, भा.पु.से. (94), पुलिस उप-महानिरीक्षक (सुरक्षा) विशेष शाखा, बिहार, पटना को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित होने की तिथि से उनकी सेवाएं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

श्री कृष्णन को निदेश दिया जाता है कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डी० एम० झा, संयुक्त सचिव।

16 जनवरी 2009

सं० 1/डी.-10-05/2007-खंड-गृ.आ.-230—श्री यशवंत मल्होत्रा, भा.पु.से. (75), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित होने की तिथि से उनकी सेवाएं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

श्री मल्होत्रा को निदेश दिया जाता है कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

सं० 1/डी.-10-05/2007-खंड-गृ.आ.-231—श्री आर. आर. वर्मा, भा.पु.से. (78), अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित होने की तिथि से उनकी सेवाएं गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंपी जाती है।

श्री वर्मा को निदेश दिया जाता है कि वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

20 जनवरी 2009

सं० 1/एल 1-10-13/1999-गृ०आ०-255—श्री परेश सक्सेना, भा०पु०से० (1994) को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 22 मई 2006 से 27 जुलाई 2006 तक कुल 67 (सड़सठ) दिनों की उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

20 जनवरी 2009

सं० 1/एल 1-10-20/2007-गृ०आ०-256—श्री आनन्द शंकर, भा०पु०से० (1973), महानिदेशक, विद्युत पर्षद कोषांग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12 मई 2008 से 20 मई 2008 तक कुल 09 (नौ) दिनों का एवं दिनांक 30 जून 2008 से 4 जुलाई 2008 तक 5 (पाँच) दिनों का, कुल 14 (चौदह) दिन के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

29 जनवरी 2009

सं० 1/एल 1-10-10/2008-गृ०आ०-342—श्री मो० शहाब अख्तर, भा०पु०से०, पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 23 जून 2008 से 16 अगस्त 2008 तक कुल 55 (पचपन) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

2 फरवरी 2009

सं० 1/एल 1-10-09/2008-गृ०आ०-378—श्री एम० सुनील कुमार नायक, भा०पु०से० (2005), पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 6 अगस्त 2008 से 17 अगस्त 2008 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

2 फरवरी 2009

सं० 1/पी05-1010/2003-खंड-गृ0आ0-383—भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को कॉलम-4 में अंकित प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के प्रवर कोटि वेतनमान एवं ग्रेड में प्रोन्नत किया जाता है।

इस प्रोन्नति के फलस्वरूप किसी भी पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	प्रोन्नति का प्रभाव
1	2	3	4
1	श्री बलदेव प्रसाद	1994	पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि में दी गयी की तिथि से
2	श्री डी. एन. गुप्ता	1994	तात्कालिक प्रभाव से
3	श्री शैलेश कुमार सिंह	1994	तात्कालिक प्रभाव से
4	श्री सुशील एम. खोपड़े	1995	तात्कालिक प्रभाव से
5	श्री एस. रविन्द्रण	1995	तात्कालिक प्रभाव से
6	श्रीमती आर. मल्लार विजी	1995	तात्कालिक प्रभाव से
7	श्री जगमोहन (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति)	1995	तात्कालिक प्रभाव से
8	श्री शाहरुख मजीद	1995	तात्कालिक प्रभाव से
9	श्री सत्यनारायण झा	1995	तात्कालिक प्रभाव से
10	श्री सुनील कुमार सिन्हा	1995	तात्कालिक प्रभाव से

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

10 फरवरी 2009

सं० 1/पी5-10-03/2008-गृ.आ.-447—श्री निर्मल कुमार आजाद, भा.पु.से. (94), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस अधीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्रीमती ए. एस. निलेकर, भा.पु.से.(94) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरूप पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रमोशन) दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

17 फरवरी 2009

सं० 1/एल1-10-02/2009-गृ0आ0-590—श्री निशांत कुमार तिवारी, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, नवादा को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 21 फरवरी 2009 से 13 मार्च 2009 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। पुलिस अधीक्षक, नवादा के अवकाश की अवधि में समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-3, गया अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नवादा का भी कार्य देखेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

25 फरवरी 2009

सं०1/पी5-10-01/2008-गृ.आ.-805—श्री दिनेश सिंह विष्ट, भा.पु.से.(87), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री राजविन्दर सिंह भट्टी, भा.पु.से.(79) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरूप पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रमोशन) दी जाती है।

सं०1/पी5-10-01/2008-गृ.आ.-806—श्री ए0 एस0 राजन, भा.पु.से.(87), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री विनय कुमार, भा.पु.से.(91) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरूप पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रमोशन) दी जाती है।

सं०1/पी5-10-01/2008-गृ.आ.-807—श्री संजीव कुमार सिंघल, भा.पु.से.(88), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्री प्रवीण वशिष्ठ, भा.पु.से.(91) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरूप पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रमोशन) दी जाती है ।

सं०1/पी5-10-01/2008-गृ.आ.-808—श्री मनमोहन सिंह, भा.पु.से.(88), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति (पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि) को उनसे कनीय श्रीमती प्रीता वर्मा, भा.पु.से.(91) के द्वारा प्रोन्नति के फलस्वरूप पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में कागजी प्रोन्नति (प्रोफार्मा प्रमोशन) दी जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

26 फरवरी 2009

सं०1/एल०टी०सी०-50-02/2008-गृ०आ०-831—विभागीय अधिसूचना संख्या-1/एल०टी०सी०-50-02/08 गृ०आ०-9565, दिनांक 11 नवम्बर 2008 के द्वारा श्री जे०के०खन्ना, भा०पु०से० (वी०एच०-74) को दिनांक 10 दिसम्बर 2008 से 19 दिसम्बर 2008 तक कुल 10(दस) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनको दिनांक 9 दिसम्बर 2008 (एक दिन) का पूर्वस्थित (Prefix) अवकाश स्वीकृत किया गया था।

श्री खन्ना के अनुरोध पर दिनांक 20 दिसम्बर 2008 (एक दिन) का पूर्वस्थित (Prefix) अवकाश के बदले पश्चस्थित (Suffix) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

इस हद तक अधिसूचना को संशोधित समझा जाय। अधिसूचना में अंकित शेष बातें यथावत् रहेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

4 मार्च 2009

सं० 1/एल 1-10-10/2005-गृ०आ०-1017—श्री राकेश राठी, भा०पु०से० (2002), पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11, 20 एवं 05 के अन्तर्गत दिनांक 12 फरवरी 2009 से 23 मार्च 2009 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

5 मार्च 2009

सं० 1/एल 1-10-16/2008-गृ०आ०-1072—श्री श्याम कुमार, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक-सह-सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19 नवम्बर 2008 से 30 नवम्बर 2008 तक कुल 12(बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

17 मार्च 2009

सं० 1/एल 1-10-04/2008-गृ०आ०-1226—श्री सुशील एम० खोपड़े, भा०पु०से० (1995), राज्यपाल के परिसहाय, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 19 मई 2008 से 5 जून 2008 तक कुल 18(अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग

अधिसूचनाएं

1 फरवरी 2009

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड II-गृ.आ.-365—श्री राज्यबर्द्धन शर्मा, भा.पु.से. (1980), पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय एवं विधिक मामले, बिहार, पटना को अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध कोषांग एवं अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड II-गृ.आ.-366—श्री सुनीत कुमार, भा.पु.से. (1980), पुलिस महानिरीक्षक, बिहार सैन्य पुलिस, बिहार, पटना को अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड II-गृ.आ.-367—श्री पी० के० ठाकुर, भा.पु.से. (1980), पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना), विशेष शाखा, बिहार, पटना को अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा एवं आसूचना, बिहार, पटना, के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड II-गृ.आ.-368—श्री राजेश रंजन, भा.पु.से. (1984), पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय एवं प्रशासन), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड II-गृ.आ.-369—श्री अरविन्द पाण्डेय, भा.पु.से. (1988), पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, रेल, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड II-गृ.आ.-370—श्री राजविन्दर सिंह भट्टी, भा.पु.से. (1990), पदस्थापन की प्रतीक्षा में (दिनांक 12 जनवरी 2009 से) को अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

3 फरवरी 2009

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-389—श्री मडई राम, भा.पु.से. (91), पदस्थापन की प्रतीक्षा में को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-390—श्री योगेन्द्र पासवान, भा.पु.से. (96), पुलिस अधीक्षक, विद्युत निगरानी कोषांग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सहकारिता कोषांग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-391—श्री सतीश कुमार, पुलिस अधीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

3 फरवरी 2009

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-392—श्री असगर ईमाम, पुलिस उपाधीक्षक (मु०), रोहतास को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-393—श्री सुधीर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अररिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-394—श्री मंसूर अहमद, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक (ओ०एस०डी०), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-395—श्री प्रकाश कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-396—श्री अजीत कुमार राय, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-397—श्री मो0 रहमान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-4, डुमराँव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-398—श्री सुकन पासवान, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), कटिहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, विद्युत निगरानी कोषांग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-399—श्री वरुण कुमार सिन्हा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाँका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक (जी0), विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-400—श्री चन्द्रिका प्रसाद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रोसड़ा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-14, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-401—श्री विनोद कुमार-2, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, सी0टी0एस0, नाथनगर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

16 फरवरी 2009

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-550—श्री कृष्ण चौधरी, भा.पु.से. (1979), अपर पुलिस महानिदेशक, तिरहुत प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-551—श्री अरुण चन्द्र वर्मा, भा.पु.से. (1979), अपर पुलिस महानिदेशक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-552—श्री राजविन्दर सिंह भट्टी, भा.पु.से. (1990), पुलिस उप महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-553—श्री विनय कुमार, भा.पु.से. (1991), पुलिस उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (आसूचना), विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री कुमार, पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-554—श्री प्रवीण वशिष्ठ, भा.पु.से. (1991), पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-555—सुश्री प्रीता वर्मा, भा.पु.से. (1991), पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सुश्री वर्मा, पुलिस महानिरीक्षक (आर्थिक अपराध), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना तथा पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-556—श्री कुमुद कुमार वर्मा, भा.पु.से. (1991), पुलिस उप महानिरीक्षक, (कार्मिक), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-557—श्री रघुनाथ प्रसाद सिंह, भा.पु.से. (1991), पुलिस उप महानिरीक्षक, भागलपुर क्षेत्र, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-558—श्री बी० श्रीनिवासन, भा.पु.से. (1992), पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-559—श्री अमित कुमार, भा.पु.से. (1994), पुलिस उप महानिरीक्षक—सह-वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-560—श्रीमती अनुपमा एस. निलेकर, भा.पु.से. (1994), पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-561—श्री बलदेव प्रसाद, भा.पु.से. (1994), पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-562—श्री एस. रविन्द्रण, भा.पु.से. (1995), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-3, बोध गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-563—श्रीमती आर. मल्लार विजी, भा.पु.से. (1995), पुलिस अधीक्षक, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-564—श्री अजिताभ कुमार, भा.पु.से. (1997), पदस्थापन की प्रतीक्षा में को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (सी०), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-565—श्री अमित लोढ़ा, भा.पु.से. (1998), पुलिस अधीक्षक, रेल, मुजफ्फरपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-6, मुजफ्फरपुर के प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-566—श्री एम. आर. नायक, भा.पु.से. (1998), पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री नायक, समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-3, बोध गया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-567—श्री राम नारायण सिंह, भा.पु.से. (1998), समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-6, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-568—श्री गणेश कुमार, भा.पु.से. (2000), पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

19 फरवरी 2009

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-668—डॉ० परेश सक्सेना, भा०पु०से० (1994), पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं संचार, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक, चम्पारण क्षेत्र, बेतिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-669—श्री शहाब अख्तर, भा०पु०से० (1991), उप महानिरीक्षक—सह-उप महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाएँ एवं संचार, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव।

19 फरवरी 2009

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड-गृ.आ.-670—श्री आनंद शंकर, भा०पु०से० (1973), पुलिस महानिदेशक (निगरानी), विद्युत बोर्ड, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक—सह-असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड-गृ.आ.-671—श्री मनोज नाथ, भा०पु०से० (1973), महानिदेशक—सह-असैनिक सुरक्षा आयुक्त, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिदेशक (निगरानी), विद्युत बोर्ड, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव ।

18 मार्च 2009

सं०1/पी1-10-13/2007-खंड-II-गृ.आ.-1338—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के फैक्स संवाद संख्या-434/1/BIHAR/2009 दिनांक 18 मार्च 2009 के आलोक में श्री गोपाल सिंह भदोरिया, भा०पु०से० (98), समादेष्टा, बी०एम०पी०-1, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

श्री पंकज कुमार दराद, भा०पु०से० (J&K-95), पुलिस अधीक्षक, दरभंगा अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय में योगदान देंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव ।

21 मार्च 2009

सं० 1/पी1-10-13/2007-खंड-II-गृ.आ.-1462—श्री पंकज कुमार दराद, भा०पु०से० (J&K-95) पदस्थापन की प्रतीक्षा में (दिनांक 19 मार्च 2009 से), को अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक (अ.), विशेष शाखा, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29—571+40 -डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पत्र संख्या-अ०पा०-140/2007 (खण्ड-I)409/वि०
वित्त विभाग

संकल्प

2 जुलाई 2009

विषय :- राज्य सरकार के ग्रुप “ए” एवं ग्रुप “बी” कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी आँकड़ों तथा आदेशों का संग्रह एवं विश्लेषण के संबंध में ।

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं० 434, दिनांक 1 मार्च 2007 संकल्प सं० 1697, दिनांक 28 मई 2008 एवं पत्रांक-881, दिनांक 3 जून 2009 की पृष्ठ भूमि में सरकार द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ग्रुप “ए” तथा ग्रुप “बी” कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी आँकड़ों तथा आदेशों का संग्रह मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा किया जाएगा । इनके आधार पर सरकार के स्थानान्तरण नीति के आलोक में स्थानान्तरणों का विश्लेषण मुख्य सचिव, बिहार करेंगे और तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ।

2. सभी विभाग ग्रुप “ए” तथा ग्रुप “बी” कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी आँकड़े एवं आदेश की प्रति मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को ससमय उपलब्ध करायेंगे ।

3. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन कुमार, प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 29—571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

गृह (आरक्षी) विभाग

संशोधित अधिसूचना

20 मार्च 2009

सं० 1/एम 2-60-06/2007-गृ0आ0-1451—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अपील आदेश संख्या 26011/09/2007 आई0पी0एस0-II दिनांक 29 जून 2007 के आलोक में गृह (आरक्षी) विभागीय अधिसूचना संख्या 6607, दिनांक 29 जून 2007 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए श्री नारायण मिश्र, भा0पु0से0 (1969) महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को दिनांक 29 जून 2007 के अपराह्न से निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

अधिसूचना में अंकित शेष बातें यथावत रहेंगी ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
धीरेन्द्र मोहन झा, संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 29-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>